



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 पौष 1933 (श0)

(सं0 पटना 811) पटना, वृहस्पतिवार, 29 दिसम्बर 2011

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

3 नवम्बर 2011

सं० 22/नि0सि0(सिवान0)—11-21/2011/1349—श्री सुदामा राय, कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, ठकराहा, शिविर—गोपालगंज द्वारा सारण तटबंध के 117.05 कि० मी० से 124.25 कि०मी० के बीच पायलट चैनल का निर्माण कार्य स्वीकृत प्राक्कलन एवं एकरारनामा में प्रावधानित कार्यमद से हटकर राजस्थानी ट्रैक्टर से कराया गया एवं इसका भुगतान एकरारित कार्यमद के अनुरूप ड्रेजिंग मशीन की दर से भुगतान किया गया। श्री राय के उक्त कार्यवाई के फलस्वरूप अनियमित भुगतान हुआ। उक्त अनियमित भुगतान के फलस्वरूप सरकार के राजकोष की क्षति हुई। उक्त प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9(1) में निहित प्रावधान के तहत श्री सुदामा राय, कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, ठकराहा, शिविर—गोपालगंज को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में श्री राय, का मुख्यालय मुख्य अभियन्ता का कार्यालय, जल संसाधन विभाग, दरभंगा निर्धारित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री राय, को अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

4. विभागीय कार्यवाही से संबंधित संकल्प अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
भरत झा,  
सरकार के उप—सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 811-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>